



# **MICROFINANCE INDUSTRY NETWORK**

## **Media Coverage Report**

राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की  
यात्रा को सशक्त बनाया

**May 2025**

### Media Coverage Index

| Sr. No.                                                                                                    | Date       | Publication       | Edition |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| <b>राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया</b> |            |                   |         |
| 1                                                                                                          | 27.05.2025 | Dainik Bhaskar    | Print   |
| 2                                                                                                          | 27.05.2025 | Dainik Bhaskar    | Print   |
| 3                                                                                                          | 27.05.2025 | Rashtriya Sahara  | Print   |
| 4                                                                                                          | 28.05.2025 | Dainik Aaj        | Print   |
| 5                                                                                                          | 27.05.2025 | Jansandesh Times  | Print   |
| 6                                                                                                          | 27.05.2025 | Prabhat           | Print   |
| 7                                                                                                          | 27.05.2025 | Rashtriya Swaroop | Print   |
| 8                                                                                                          | 27.05.2025 | Divya Prakash     | Print   |
| 9                                                                                                          | 27.05.2025 | Hukoomat Express  | Print   |
| 10                                                                                                         | 27.05.2025 | Spasht Awaz       | Print   |
| 11                                                                                                         | 27.05.2025 | Aawam-e-Hind      | Print   |
| 12                                                                                                         | 28.05.2025 | Bijnor Samachar   | Print   |
| 13                                                                                                         | 28.05.2025 | Janmorcha         | Print   |
| 14                                                                                                         | 28.05.2025 | Swatantra Bharat  | Print   |
| 15                                                                                                         | 28.05.2025 | Uttar Kesari      | Print   |
| 16                                                                                                         | 28.05.2025 | Janmadhyam        | Print   |
| 17                                                                                                         | 28.05.2025 | Readers Messenger | Print   |
| 18                                                                                                         | 28.05.2025 | Everyday News     | Print   |
| 19                                                                                                         | 27.05.2025 | UP Hindi News     | Online  |
| 20                                                                                                         | 27.05.2025 | Telescope Today   | Online  |
| 21                                                                                                         | 30.05.2025 | Instant Khabar    | Online  |
| 22                                                                                                         | 31.05.2025 | Spasht Awaz       | Print   |
| 23                                                                                                         | 01.06.2025 | Swatantra Bharat  | Print   |
| 24                                                                                                         | 02.06.2025 | Lucknow News      | Print   |

**राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की  
यात्रा को सशक्त बनाया**

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई -पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र “आपकी उन्नति हमारा संकल्प” के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों



को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है, जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए, अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद, उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रोफाइनेंसकी पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू किया, और धीरे-धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई -पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र “आपकी उन्नति हमारा संकल्प” के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है, जहाँ 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए, अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी माँ से सिलाई का हुनर सीखने के बाद, उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रोफाइनेंसकी पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू किया, और धीरे-धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया।



## राध्या की नई पहल

नई दिल्ली। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने आजीविक केंद्रित ऋण प्रदान करने की पहल शुरू की है। कंपनी ने अपनी इस पहल के तहत कुछ समय पूर्व 22 वर्षीय अनामिका को इसी तरह का कर्ज दिया था जिससे उसने सिलाई का काम शुरू किया और अब वह गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी ने कहा कि हम आपकी उन्नति हमारा संकल्प के तहत आजीविका आधारित ऋण वितरण को प्राथमिकता दे रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

### राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

**मुरादाबाद।** भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई, पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहाँ 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू किया और धीरे-धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया। परिणामी आय ने न केवल उसके घर को वित्तीय स्थिरता दी बल्कि उसे अपने बेटे को एक बेहतर स्कूल में दाखिला दिलाने में भी सक्षम बनाया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

**मुरादाबाद।** भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-

एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केन्द्रित ऋण प्रदान

करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहाँ 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के

साधन में बदल दिया।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड



जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र

आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22

वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया।

## इलेक्रामा 2025 में 20 स्टार्टअप्स की प्रतिस्पर्धा में एआई स्वचालन और सस्टेनेबिलिटी सबसे आगे

राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

**मुरादाबाद।** भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केन्द्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22 वार्षिक अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बादए उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुआदाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केन्द्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय



की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बादए उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रोफाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू कियाए और धीरे-धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई, पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केन्द्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी

उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले

परिवारों को सुलभ,



आजीविका.केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को

उजागर करता है। आरबीआई, पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में

कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के

ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त

दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया।



अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बादए उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केंद्रित ऋण प्रदान

करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से

सिलाई का हुनर सीखने के बादए उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रोफाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू कियाए और धीरे.धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

**मुरादाबाद।** भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई .पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका.केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद ए उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रोफाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। आज अनामिका न केवल अपना छोटा सा व्यवसाय चला रही हैं बल्कि समुदाय की अन्य महिलाओं के साथ अपने कौशल को भी साझा कर रही हैं।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मुरादाबाद। भारत में माइक्रोफाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई, पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई राध्या माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केन्द्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणक्षेत्र से आती है जहाँ 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपनी माँ से सिलाई का हुनर सीखने के बाद उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रोफाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

नई दिल्ली। भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। ऋण-पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र «आपकी उन्नति हमारा संकल्प» के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केन्द्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहाँ 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए, अनामिका ने अपने परिवार के

लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी माँ से सिलाई का हुनर सीखने के बाद, उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रो फाइनेंस की पूँजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गाँव की महिलाओं को सिलाई सेवाएँ देना शुरू किया, और धीरे-धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया। परिणामी आय ने न केवल उसके घर को वित्तीय स्थिरता दी, बल्कि उसे अपने बेटे को एक बेहतर स्कूल में दाखिला दिलाने में भी सक्षम बनाया। आज, अनामिका न केवल अपना छोटा सा व्यवसाय चला रही हैं, बल्कि समुदाय की अन्य महिलाओं के



साथ अपने कौशल को भी साझा कर रही हैं। अब वह स्थानीय बाजार में एक सिलाई की दुकान खोलने की तैयारी कर रही हैं, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र स्थापित करना है। अनामिका आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं - «जिस दिन मुझे राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट

लिमिटेड से वित्तीय सहायता मिली, मुझे लगा जैसे मेरे लिए एक दरवाज़ा खुल गया हो। आखिरकार मुझे अपने हुनर को किसी सार्थक चीज़ में बदलने का एक तरीका मिल गया। आज, मुझे अपने परिवार का समर्थन करने और अपने गाँव की अन्य महिलाओं को अपनी यात्रा शुरू करने में मदद करने पर गर्व है।



## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

लखनऊ। भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र 'आपकी उन्नति हमारा संकल्प' के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केन्द्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहाँ 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए, अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया।

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

लखनऊ, एवरीडे न्यूज संवाददाता। भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। RBI-पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए, अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद, उसने अपने कौशल

को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रो फाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान

खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू किया, और धीरे-धीरे एक वफादार ग्राहक वर्ग बनाया।

## Radhiya Micro Finance ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

May 27, 2025 Uphindinews



22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।

बिजनेस डेस्क, लखनऊ : भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। RBI-पंजीकृत NBFC-MFI, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र "आपकी उन्नति हमारा संकल्प" के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।



## राध्या माइक्रो फाइनेंस : अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को बनाया सशक्त

Telescope Today May 27, 2025

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। RBI-पंजीकृत NBFC-MFI, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अपने मूल मंत्र “आपकी उन्नति हमारा संकल्प” के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रो लोन को बदलाव के साधन में बदल दिया।

अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने

URL - <https://www.instantkhabar.com/item/radhya-micro-finance-empowers-anamikas-journey-to-self-reliance-in-rural-uttar-pradesh.html>

## राध्या माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनामिका की आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त बनाया

मई 30, 2025 22:25

कवरेज

RADHYA MICRO FINANCE



भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश भर में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। RBI-पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र "आपकी उन्नति हमारा संकल्प" के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए, अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद, उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा - लेकिन शुरू करने के लिए उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रो फाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली। उसने दृढ़ता के साथ अपने गांव की महिलाओं को सिलाई सेवाएं देना शुरू

### राध्या माइक्रो फाइनेंस की ग्रामीण क्षेत्रों में अनामिका यात्रा

लखनऊ। भारत में माइक्रो फाइनेंस जमीनी स्तर पर विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है, जो देश में वंचित लाखों महिलाओं की क्षमता को उजागर करता है। आरबीआई-पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्रा लि जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र "आपकी उन्नति हमारा संकल्प" के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिवर्तन की ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहां 22 वर्षीय अनामिका ने एक माइक्रोलोन को बदलाव के साधन में बदल दिया। अपने पति की मजदूरी से प्राप्त दैनिक आय की अनिश्चितता का सामना करते हुए अनामिका ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प किया। अपनी मां से सिलाई का हुनर सीखने के बाद, उसने अपने कौशल को आजीविका में बदलने का अवसर देखा, लेकिन उसके पास वित्तीय साधन नहीं थे। अनामिका ने राध्या माइक्रो फाइनेंस की पूंजी से सिलाई मशीन और बुनियादी सामान खरीदा जिससे उसकी स्थिति बदली।

वित्तीय समावेशन: आरबीआई-पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई, राध्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाएँ, अपने मूल मंत्र आपकी उन्नति हमारा संकल्प के मार्गदर्शन में, कम आय वाले परिवारों को सुलभ, आजीविका-केंद्रित ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

## Radhya Micro finance empowers Anamika's journey of self-reliance in rural Uttar Pradesh

### OUR CORRESPONDENT

**LUCKNOW:** The microfinance sector in India continues to be a catalyst for grassroots development, unlocking the potential of millions of underserved women across the country. Institutions like Radhya Microfinance Pvt Ltd, an RBI-registered NBFC-MFI, led by its guiding motto 'Aapki Unnati Hamara Sankalp', are playing a pivotal role in advancing financial inclusion by providing accessible, livelihood-focused credit to low-income households. One such story of

transformation comes from rural Uttar Pradesh, where 22-year-old Anamika turned a microloan into a tool for change.

Faced with the unpredictability of her husband's daily-wage income, Anamika was determined to create a more secure future for her family. Having learned tailoring from her mother, she saw an opportunity to turn her skill into a livelihood - but lacked the financial means to get started. That changed with capital from Radhya, which helped her buy a sewing machine and basic supplies. With focus

and persistence, she began offering tailoring services to women in her village, steadily building a loyal clientele. The resulting income not only brought financial stability to her household but also enabled her to enrol her son in a better school.

Today, Anamika not only continues to run her small business but also shares her skills with other women in the community. She is now preparing to open a tailoring shop in the local market, with a long-term vision of establishing a training and employment hub for women in the region.